



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1941 (श0)

(सं० पटना 119) पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2020

सं०-6 एस०एस०(11)04/2019-331

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

3 फरवरी 2020

विषय :- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-1/2017-U.II दिनांक-11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है।

2. भारत सरकार के उक्त पत्र तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प-592, दिनांक-06.03.2019 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उनके क्षेत्राधीन पड़ने वाले संस्थानों के लिए किया गया है। साथ ही केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के वित्त विभागीय संकल्प-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017 के द्वारा पेंशन पुनरीक्षण किया जा चुका है। उक्त पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के क्षेत्राधीन पड़ने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों के सेवा निवृत्त/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नरूपेण पुनरीक्षित किया जा रहा है :-

(क) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त हो कर नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को ही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा।

(ख) पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वैचारिक लाभ दिनांक-01.01.2016 से तथा आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2017 से अनुमान्य होगा।

3. दिनांक-01.01.2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत्त/मृत शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण-

दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के सेवा निवृत्त/मृत/विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की

भाँति ही निम्नांकित दो साध्य (सूत्र) को आधार मानकर ही प्रत्येक पेंशनर के मामले में दोनों सूत्र में से जो उच्चतर पेंशन निर्धारित होता है तो उसे ही उस पेंशनर हेतु मान्य किया जायेगा।

(क) **प्रथम सूत्र**— (i) संबंधित शिक्षक की सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे० में प्राप्त मूल वेतन को संवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक-01.01.2016 को भुगतये पेंशन/परिवार पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) दिनांक-01.01.1981 से दिनांक-31.12.2005 तक सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिनांक-01.01.2016 को प्राप्त पेंशन/परिवार पेंशन राशि की गणना की जाएगी।

(iii) दिनांक-01.01.2006 से 31.12.2015 के बीच सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के संदर्भ में पेंशन का निर्धारण उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन को 2.57 से गुणा कर 01.01.2016 को निर्धारित किया जाएगा।

(ख) **दूसरा सूत्र**— दिनांक-31.12.2015 को प्राप्तये पेंशन राशि में 2.57 के स्थित गुणक से गुणा कर पेंशन राशि का निर्धारण किया जाएगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्र में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही अंतिम पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा। लेकिन 01.04.2017 के पूर्व की अवधि हेतु कोई बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4. (i) **पेंशन की राशि**— पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा विश्वविद्यालय कर्मियों के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(ii) **परिवार पेंशन**— परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा विश्वविद्यालय के उच्चतर वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

5. (i) **अतिरिक्त पेंशन**— 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप में जारी रहेगी :-

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 :
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 :
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 :
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 :
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100 :

6. (i) **चिकित्सा भत्ता** :- पेंशन/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो विश्वविद्यालय के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेंगी।

7. **दिनांक-01.01.2016 के बाद के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत्त/मृत शिक्षकों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण**—

वैसे सेवानिवृत्त/मृत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक-01.01.2016 के पश्चात् हुई है, के संदर्भ में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प 592, दिनांक-06.03.2019 का प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे जो क्रमशः निम्न प्रकार है :-

(i) दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त/मृत विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु निरूपित की गई वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा। वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा।

(ii) **पेंशन की राशि**— पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(iii) **परिवार पेंशन**— परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतर वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

(iv) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान**— दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रु० 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ देय होगा।

(v) **अतिरिक्त पेंशन**— 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप से जारी रहेगी :-

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 %

85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 %
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 %
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 %
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100 %

8. चिकित्सा भत्ता — पेंशन/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।
9. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के लिए पेंशन निर्धारण हेतु प्रक्रियाओं के निरूपण तथा उसे पे मैट्रिक्स/सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुशरण कर विभाग (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) वित्त विभाग की सहमति से अधिसूचित करेगी।
10. पेंशन पुनरीक्षण संबंधी निर्गत होने वाले संकल्प में भविष्य में यदि कोई त्रुटियाँ परिलक्षित होने की स्थिति में माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर यथा आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

आदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 119-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>